



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1944 (श10)  
(सं0 पटना 184) पटना, मंगलवार, 05 अप्रील 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी 2022

सं० 3/एच0-01/2019सा0प्र0-2433—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 के अवसर पर सात चरणों में मतदान क्रमशः दिनांक—10.02.2022, 14.02.2022, 20.02.2022, 23.02.2022, 27.02.2022, 03.03.2022 एवं 07.03.2022 को निर्धारित की गई है।

2. निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या—577 दिनांक—14.02.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए दिनांक—03.03.2022 एवं 07.03.2022 को निर्धारित छठे एवं सातवें चरण के मतदान की तिथि को बिहार की सीमा क्षेत्र अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के कार्मिक, जो बिहार राज्य में कार्यरत हैं को सवैतनिक अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—135 'ख' में निहित प्रावधानों के आलोक में उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के छठे एवं सातवें चरण के लिए दिनांक—03.03.2022 (गुरुवार) एवं दिनांक—07.03.2022 (सोमवार) को निर्धारित मतदान हेतु बिहार की सीमा क्षेत्र अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के कार्मिकों, जो बिहार राज्य में कार्यरत हैं, के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

4. उपर्युक्त दिनांक—03.03.2022 (गुरुवार) एवं दिनांक—07.03.2022 (सोमवार) को निर्धारित मतदान के लिए सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश मात्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ही रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
गुफरान अहमद,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 184-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>